



एक भारत श्रेष्ठ भारत

Aaj Ka Vakya

Let's learn one sentence every day in 22 different Indian Languages

82. Would you like to take some rest?

ASSAMESE	আপুনি অলপ জিৰণি ল'ব নেকি?	Aapuni alop jironi lobo neki?
BENGALI	আপনি কি একটু বিশ্রাম নেবেন?	Aapni ki ektu bishram neben?
BODO	নোঞ্চাঙা দান্দিসে জিরায়নো মোজাং মোনো না ?	Nwngthanga dandisay jirainw mwjang mwnw na?
DOGRI	কেহ ভলা তুস বিন্দ'ক রমান করনা চাহগে ?	Keh bhalaa tus bind'k ramaan karanaa chaahge ?
GUJARATI	થું તમે થોડો આરામ કરવા માંગો છો?	Shu tame thodo aaram karva maango chho?
HINDI	क्या आप थोड़ा आराम करना पसंद करेंगे?	Kya aap thoda aaram karna pasand karengे?
KANNADA	ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಂತಿ ತಗ್ಗೋತ್ತಿರ್ತಾ?	Neetu swalpa vishranthi tagoteeraa?
KASHMIRI	توبی مچھو آرام یژهان گُرْن؟	Tuih ma chew aaram yasaan karun?
KONKANI	तुमी थोडो ववसव घेतले?	Tumi thodo visav ghetle?
MAITHILI	কী অহঁ আরাম করব পসংদ করব ?	Ki ahan aaram karab pasand karab?
MALAYALAM	താങ്കൾക്ക് കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിക്കണ്ണോ?	Thaankalkku kurachu neram visramikkano?
MANIPURI	ଅଦୋମ ଓଇହାକ ପୋଥାନିଂବରା ?	Adom ngaihak pothaningbara ?

MARATHI	तुम्हाला थोडी विश्रांती घ्यायची आहे का ?	Tumhala thodi vishraanti ghyayachi aahe kaa?
NEPALI	के तपाईं केही आराम गर्न चाहनु हुन्छ?	Ke tapai kehi aaram garna chahanu hunchha?
ODIA	ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଢାହୁଁଛନ୍ତି କି?	Apana bisrama nebaku chahunchanti ki ?
PUNJABI	ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ?	Ki tusi thora araam karna chahoge?
SANSKRIT	भवान् विश्रामं कर्तुमिच्छति किम्?	Bhavaan vishraaman kartumichchhati kim?
SANTALI	চিত্ আম্ দো থোঢ়া জিৱাব এম্ মেন দা ?	Chit aan do thoda ziraw em men da ?
SINDHI	چا توهان تورو آرام کرڻ چاهيندند	Chhaa tawhan thoro araam karan chaahenda?
TAMIL	நீங்கள் கொஞ்சம் ஓய்வு எடுக்க விரும்புகிறீர்களா?	Neengal konjam ooivu edukka virumbukireergala?
TELUGU	మీరు విశారంతు తీసుకుంటారా?	Mīru viśrānti tīsukuṇṭārā?
URDU	کیا آپ تھوڑا آرام کرنا پسند کریں گے؟	Kya aap thoda aaram karna pasand karenge?